



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 फाल्गुन 1934 (श0)  
(सं0 पटना 234) पटना, बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2013

---

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

13 मार्च 2013

सं0 4 (न) निर्वा-01/09-727—चूँकि नगर पंचायत, केसरिया (पूर्वी चम्पारण) एवं साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) का कार्यकाल अप्रैल, 2013 में समाप्त हो रहा है;

और चूँकि वैधानिक प्रावधानों के अधीन उन नगरपालिका के लिए चुनाव कराना आवश्यक हो गया है,

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या-11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर उक्त नगरपालिकाओं के पार्षदों के निर्वाचन के लिये मतदान हेतु 13 अप्रैल, 2013 की तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डा0 एस0 सिद्धार्थ,

सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 234-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>